



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 346]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 1979/भाद्र 9, 1901

No. 346]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 1979/BHADRA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1979

का. आ. 494 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 840(अ.)/18क/आई डी आर ए/77, तारीख 15 दिसम्बर, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, “सब्स्य” शीर्षक के अन्तर्गत, क्रम सं. 5 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5. श्री सी. वी. एस. मणि,
संयुक्त सचिव,
रसायन और उर्वरक विभाग,
नई दिल्ली-110001।”

[फा. सं. 4/26/76-सी.यू.सी.]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDERS

New Delhi, the 31st August, 1979

S.O. 494 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby make the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 840(E)/18A/IDRA/77 dated the 15th December, 1977, namely :—

In the said Order under the heading “Members”, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

“5. Shri C. V. S. Mani,
Joint Secretary,
Department of Chemicals and Fertilizers,
New Delhi-110001.”

[F. No. 4/26/76-CUC.]

का. आ. 495 (अ) :—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश

सं. का. आ. 455(अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/73, तारीख 31 अगस्त, 1973 के द्वारा, जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है, यह घोषित किया था कि उक्त राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या कोई संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंजाटों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिनका मेसर्स कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता एक पक्षकार है, या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेंगे और उस तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि 30 अगस्त, 1979 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाई गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि तारीख 23 अक्टूबर, 1979 तक के लिए जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18(ब) की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 23 अक्टूबर, 1979 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ाती है ।

[फा. सं-1/92/71-सी.यू.एस.]

ब. राय, संयुक्त सचिव ।

S.O. 495(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 455(E)/18FB/IDRA/73, dated the 31st August, 1973, hereinafter referred to as the said Order, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) had declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards or other instruments in force immediately before the publication of the said order in the official Gazette to which the Industrial Undertaking known as Messrs. Carter Pooler and Company Private Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year;

And whereas the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th August, 1979 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of the 23rd October, 1979;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of Section 18 FB of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order for a further period upto and inclusive of the 23rd October, 1979.

[F. No. 1/92/71-CUS]

B. ROY, Jt. Secy.